

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258046
SG-DL-E-18102024-258046असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/अश्विन 26, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 227
No. 264]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 227

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

x'g ¼i fyl &2½ foHkkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2024

Ok- l ¼@2@1@1988@x'g i fyl &2@[k.M&A@3217-20.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/10/2024 | 18/01/2025 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,
राजन भटनागर, उप-सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th October, 2024

F. No. 2/1/88/HP-II/Pt.-I/3217-20.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/10/2024 to 18/01/2025** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy.